



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1775]

No. 1775]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 2008/अग्रहायण 27, 1930

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 18, 2008/AGRAHAYANA 27, 1930

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2931(अ).—प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा, जो दिल्ली के दक्षिण दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ने लोक सभा में अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है तथा अध्यक्ष ने 18 दिसम्बर, 2008 से उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है।

[सं. 21/3/2008/टी.]

पी. डी. टी. आचारी, महासचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2008

S.O. 2931(E).—Prof. Vijay Kumar Malhotra, an elected member of Lok Sabha from South Delhi Parliamentary Constituency of Delhi has resigned his seat in Lok Sabha and his resignation has been accepted by the Speaker with effect from 18 December, 2008.

[No. 21/3/2008/T]

P. D. T. ACHARY, Secy. -General